



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 अग्रहायण 1930 (श0)  
(सं0 पटना 557) पटना, वृहस्पतिवार 11 दिसम्बर 2008

आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

13 जून, 2008

सं० प्रा० आ०-16/2008-1502 आ० प्र०—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा प्रत्येक जिले के लिए “जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण” (जिसे इन नियमों में जिला प्राधिकरण के रूप में जिक्र किया जाएगा) का गठन करती है, जो इस अधिनियम के तहत इसे सौंपे गए विभिन्न कार्यों को करेगी। उक्त अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2), (3), (4) में यथा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

- |       |                                      |   |              |
|-------|--------------------------------------|---|--------------|
| (i)   | जिला पदाधिकारी/ जिला समाहर्ता        | - | पदेन अध्यक्ष |
| (ii)  | अध्यक्ष जिला परिषद                   | - | सह-अध्यक्ष   |
| (iii) | पुलिस अधीक्षक                        | - | पदेन सदस्य   |
| (iv)  | मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी             | - | पदेन सदस्य   |
| (v)   | उप विकास आयुक्त                      | - | पदेन सदस्य   |
| (vi)  | अपर समाहर्ता (प्रभारी साहाय्य कार्य) | - | पदेन सदस्य   |
| (vii) | जिला के वरीयतम अभियंता               | - | पदेन सदस्य   |
- (2) अपर समाहर्ता (प्रभारी साहाय्य कार्य) जिला प्राधिकार के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे।
- (3) अधिनियम की धारा 27 के अनुसार जिला प्राधिकरण की बैठक अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान एवं समय पर होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
कृष्ण कुमार अग्रवाल,  
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 557-571+100-डी0टी0पी0।